



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 168-2023/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, SEPTEMBER 21, 2023 (BHADRA 30, 1945 SAKA)

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

आदेश

दिनांक 21 सितम्बर, 2023

**संख्या 9/82/2023-4क II.**— हरियाणा नगर पालिका वार्ड परिसीमन नियम, 1977 के नियम 10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, अधिसूचना संख्या 9/82/2023-4क II, दिनांक 26.08.2023 के प्रतिनिर्देशों से नीचे दी गई अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा नगर पालिका, फर्रुखनगर, जिला गुरुग्राम के वार्डों का परिसीमन प्रकाशित करते हैं :-

### सीमाओं की अनुसूची

**वार्ड नं० 01 :-** प्रारम्भिक बिन्दू अक्षांश-देशान्तर 28.4746-76.8042 जहां नगरपालिका की उत्तर-पूर्व सीमा आरम्भ होती है से उत्तर दिशा में सीमा के साथ चलते गऊशाला फर्रुखनगर तक इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए सुनीता के मकान तक, इसके बाद पश्चिमी दिशा में मिनी बाई-पास पर चलते हुए खेम के मकान से होते हुए शैल फार्म रोड़ पर चलते हुए उस स्थान तक नगरपालिका की पश्चिमी सीमा जोकि बिन्दू नं० अक्षांश-देशान्तर 28.4522-76.7997 है। उसके बाद नगरपालिका की पश्चिम व उत्तर सीमा के साथ जाते हुए जहां उत्तरी-पूर्वी सीमा तक, जोकि प्रारम्भिक बिन्दू अक्षांश-देशान्तर 28.4746-76.8042 है।

**वार्ड नं० 02 :-** प्रारम्भिक बिन्दू गऊशाला से आरम्भ होकर नगरपालिका की पूर्व-दक्षिण सीमा तक व इसके बाद दक्षिण दिशा में पालिका सीमा के साथ-साथ चलते हुए सैनी स्कूल तक, जोकि सुल्तानपुर गुरुग्राम रोड़ है। इसके बाद उक्त रोड़ के साथ-साथ पश्चिम दिशा में चलते हुए सुल्तानपुर मोड़ पर हरिश की दुकान के सामने से होते हुए उत्तरी दिशा में चलते हुए दिनेश यादव के मकान तक इसके बाद पश्चिम दिशा में चलते हुए रतन लाल के मकान तक इसके बाद उत्तरी दिशा में चलते हुए मिनी बाई-पास के संगम तक, इसके बाद उक्त रोड़ पर पश्चिम दिशा में वंश अस्पताल तक, इसके बाद उत्तरी दिशा में गऊशाला रोड़ पर चलते हुए गऊशाला तक, जोकि प्रारम्भिक बिन्दू है।

**वार्ड नं० 03 :-** प्रारम्भिक बिन्दू प्रदीप के मकान से सुल्तानपुर-गुरुग्राम रोड़ से आरम्भ होकर पालिका सीमा के साथ-साथ दक्षिण दिशा में चलते हुए वजीरपुर-गुरुग्राम रोड़ के समागम तक, इसके बाद उक्त रोड़ पर पश्चिम दिशा में चलते हुए खन्ना नाई की दुकान तक, इसके बाद उत्तरी दिशा में चलते हुए एम.आर. मोर्टस से पूर्व दिशा में चलते हुए, प्रारम्भिक बिन्दू प्रदीप के मकान तक है।

**वार्ड नं० 04 :-** प्रारम्भिक बिन्दू बिजली विभाग कार्यालय से आरम्भ होकर पूर्व दिशा वजीरपुर रोड़ पर चलते हुए नगरपालिका सीमा बिन्दू अक्षांश-देशान्तर 28.443-76.8415 तक, इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए नगरपालिका सीमा बिन्दू 28.4136-76.8411 तक इसके बाद पश्चिम दिशा में चलते हुए बिन्दू अक्षांश-देशान्तर 28.4153-76.8266 तक जोकि फाजिलपुर रोड़ पर मिलती है। इसके बाद उत्तर दिशा में उक्त रोड़ पर चलते हुए बिन्दू अक्षांश-देशान्तर 28.4396-76.8236 तक, उसके बाद पूर्व दिशा में चलते हुए जन स्वास्थ्य विभाग कार्यालय से होते हुए सैनी धर्मशाला तक इसके बाद उत्तरी दिशा में चलते हुए बिजली विभाग कार्यालय तक, जोकि प्रारम्भिक बिन्दू बिजली विभाग कार्यालय है।

**वार्ड नं० 05 :-** प्रारम्भिक बिन्दू शिव दयाल सैनी की दुकान बस अड्डा से आरम्भ होकर पूर्व दिशा में वजीरपुर रोड़ पर चलते हुए संदीप यादव के प्लाट तक इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए अशोक के मकान तक इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए साकमभरी किरयाना की दुकान तक इसके बाद उत्तरी दिशा में फाजिलपुर रोड़ पर चलते हुए कृष्ण यादव की दुकान तक इसके बाद पूर्व-उत्तरी दिशा में बस अड्डा की ओर चलते हुए शिवदयाल सैनी की दुकान तक, जोकि प्रारम्भिक बिन्दू है।

**वार्ड नं० 06 :-** प्रारम्भिक बिन्दू अक्षांश-देशान्तर 28.4447-76.7969 हेलीमण्डी खेड़ा-खूर्मपूर रोड़ जहां पालिका की पश्चिमी सीमा लगती है, से प्रारम्भ होकर पूर्व दिशा की ओर चलते हुए बिन्दू शिव मन्दिर तक, इसके बाद दक्षिण दिशा में फाजिलपुर रोड़ पर चलते हुए खसरा नं० 189 का कीला नं० 16 मिन तक, इसके बाद पश्चिम-उत्तरी सीमा के साथ जाते हुए जहां नगरपालिका सीमा पटौदी रोड़ को काटते हुए नगरपालिका सीमा हेलीमण्डी खेड़ा-खूर्मपूर रोड़ पर मिलती है, जोकि प्रारम्भिक बिन्दू अक्षांश-देशान्तर 28.4447-76.7969 है।

**वार्ड नं० 07 :-** प्रारम्भिक बिन्दू नरेश कुमार दीक्षित के मकान से पूर्व दिशा की ओर चलते हुए रामकिशन के मकान तक, इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए जाटव चौपाल तक, इसके बाद पश्चिम दिशा में पटौदी रोड़ पर चलते हुए बाबू लाल बावरिया के मकान तक उसके बाद उत्तरी दिशा की ओर चलते हुए नरेश कुमार दीक्षित के मकान तक, जोकि प्रारम्भिक बिन्दू है।

**वार्ड नं० 08 :-** प्रारम्भिक बिन्दू गजेन्द्र जैन की दुकान से पूर्व दिशा की ओर जाते हुए शीला देवी की दुकान तक इसके बाद दक्षिण-पूर्व दिशा की ओर चलते हुए अशोक कुमार के मकान तक, इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए विजय की दुकान तक, इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए बबीता देवी के मकान से होते हुए मुन्शी राम के मकान तक, इसके बाद उत्तर दिशा की ओर चलते हुए गजेन्द्र की दुकान तक, जोकि प्रारम्भिक बिन्दू है।

**वार्ड नं० 09 :-** प्रारम्भिक बिन्दू चितवन के मकान से पूर्व दिशा की ओर से चलते हुए रोहतास के मकान तक, इसके बाद दक्षिण पूर्व दिशा की ओर चलते हुए रेखा (मुकेश फलवाला) दुकान तक, इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए राजिन्द्र के मकान तक, इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए, राजिन्द्र के मकान तक, इसके बाद उत्तर दिशा की ओर चलते हुए मोला देवी के मकान तक, इसके बाद राजबाला के मकान से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए लड़कियों के विद्यालय तक फिर उत्तर दिशा में चलते हुए रामोतार के मकान तक, इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए सुनील गोयल की दुकान तक, इसके बाद उत्तर दिशा की ओर चलते हुए चितवन के मकान तक, जोकि प्रारम्भिक बिन्दू है।

**वार्ड नं० 10 :-** प्रारम्भिक बिन्दू नगरपालिका की दुकानों से पूर्व दिशा (मिनी बाईपास) की ओर चलते हुए बिसन सैनी के मकान तक इसके बाद दक्षिण पूर्व की दिशा की ओर जीवन ज्योति विद्यालय से होते हुए मामन की दुकान तक, इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए सतबीर की दुकान तक इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए सरवन की दुकान तक, इसके बाद उत्तर दिशा की ओर चलते हुए मंजू के मकान तक, इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए निहाल सिंह के मकान तक इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए इन्द्र के मकान तक, इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए भानेराम के मकान तक, इसके बाद उत्तर पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए विधा देवी के मकान तक उत्तर पूर्व दिशा की ओर चलते हुए नगरपालिका की दुकानों तक, जोकि प्रारम्भिक बिन्दू है।

**वार्ड नं० 11 :-** प्रारम्भिक बिन्दू कमलेश के मकान से पूर्व दिशा की ओर चलते हुए मदन सैनी के मकान तक इसके बाद उत्तर दिशा की ओर चलते हुए नेतराम के मकान तक इसके बाद पूर्व दिशा की ओर चलते हुए गउशाला ग्राउण्ड तक, इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए हरचन्द सैनी के मकान से होते हुए, जैन दातों का अस्पताल तक, इसके बाद पश्चिम उत्तर की ओर चलते हुए बसंती के मकान तक पश्चिम की ओर चलते हुए पुष्पा के मकान तक, इसके बाद उत्तर दिशा की ओर चलते हुए शेर सिंह के मकान तक, इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए मोतीलाल वर्मा के मकान तक, इसके बाद उत्तर दिशा की ओर चलते हुए किशन चन्द की दुकान तक, इसके बाद पूर्व-उत्तर दिशा की ओर चलते हुए कमलेश के मकान तक, जोकि आरम्भिक बिन्दू है।

**वार्ड नं० 12 :-** प्रारम्भिक बिन्दू मोतीलाल वर्मा के मकान से पूर्व दिशा की ओर चलते हुए श्याम लाल के मकान तक, इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए अतर जैन की दुकान तक, इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए दिगम्बर जैन की दुकान तक, इसके बाद उत्तर दिशा की ओर चलते हुए मोतीलाल वर्मा के मकान तक, जोकि प्रारम्भिक बिन्दू है।

**वार्ड नं० 13 :-** प्रारम्भिक बिन्दू सन्तोष के मकान से पूर्व दिशा मिनी बाई-पास पर चलते हुए नगरपालिका की दुकान तक, इसके बाद दक्षिण-पश्चिम दिशा में चलते हुए साधू के मकान से होते हुए रधूनाथ के मकान तक, इसके बाद पश्चिम-उत्तर चलते हुए मस्तराम के मकान से होते हुए लक्ष्मण के मकान तक इसके बाद उत्तर दिशा की ओर चलते हुए सन्तोष के मकान तक, जोकि प्रारम्भिक बिन्दू है।

**वार्ड नं० 14 :-** प्रारम्भिक बिन्दू पुष्पा के मकान से पूर्व-दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए रधूनाथ के मकान तक, इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर सीताराम मन्दिर तक इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए सरवन के मकान तक, इसके बाद उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए ओम प्रकाश के मकान तक इसके बाद उत्तर-पूर्व दिशा की ओर चलते हुए पुष्पा के मकान तक, जोकि प्रारम्भिक बिन्दू है।

**वार्ड नं० 15 :-** प्रारम्भिक बिन्दू राजकुमार के मकान से पूर्व-दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए पशु अस्पताल तक इसके बाद पूर्व दिशा की ओर चलते हुए अरुण जैन की दुकान से होते हुए राजरानी के मकान तक, इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए सरकारी अस्पताल तक, इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए सरकारी अस्पताल तक, इसके बाद उत्तर दिशा की ओर चलते हुए नगरपालिका कार्यालय के सामने से होते हुए राजकुमार के मकान तक, जोकि प्रारम्भिक बिन्दू है।

**वार्ड नं० 16 :-** प्रारम्भिक बिन्दू खसरा नं० 65 का किला नं० 10 जहां नगरपालिका की पश्चिम-पूर्वी सीमा आरम्भ होती है इससे पूर्व-उत्तर दिशा की ओर चलते हुए बलबीर के मकान तक, इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए प्रमोद के मकान तक, इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए महताब के मकान तक, दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए रमेश के मकान तक, इसके बाद पश्चिम-दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए धनखड़ विद्यालय से होते हुए लजिज भोजनालय तक, इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए नगरपालिका की पश्चिमी सीमा जोकि बिन्दू खसरा नं० 69 का किला नं० 22 से नगरपालिका की पश्चिमी व उत्तरी सीमा के साथ जाते हुए जो उत्तरी-पूर्वी सीमा तक, जोकि प्रारम्भिक बिन्दू खसरा नं० 65 का किला नं० 10 है।

विकास गुप्ता,  
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,  
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

## HARYANA GOVERNMENT URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

### Order

The 21st September, 2023

**No. 9/82/2023-4CII.**— In exercise of the powers conferred under rule 10 of the Haryana Municipal Delimitation of Ward Rules, 1977 and with reference to the Haryana Government, Urban Local Bodies Department, notification No. 9/82/2023-4CII dated 26.08.2023, the Governor of Haryana hereby publishes the delimitation of the wards of **Municipal Committee, Farrukh Nagar, District Gurugram** as specified in the schedule given below, namely.-

### SCHEDULE OF BOUNDARIES

**Ward No. 01 :-** Starting point latitude and longitude 28.4746-76.8042 where the north-east boundary of the municipality begins, towards along the boundary in the north direction up to Gaushala Farrukhnagar, then towards the south direction to Sunita's house, then towards in the west direction on the mini-bypass passing along Khem's house to Shell Farm which is the western boundary of the municipality while connecting on the road up to the point no. latitude and longitude. 28.4522-76.7997, Then along the western and northern boundary of the municipality up to the north-eastern boundary which is the starting point no. latitude and longitude 28.4746-76.8042.

**Ward No. 02 :-** Starting point from Gaushala to the east-south boundary of the municipality and then towards the municipal boundary in the south direction up to Saini School which is on Sultanpur Gurugram Road. After this, along the said road in the west direction on Sultanpur Mode passing in front shop of Harish towards north direction up to Dinesh Yadav's house, then along the west direction up to house of Ratanlal and then towards in the north direction up to the confluence of mini bypass, then on the said road in the west direction up to Vansh Hospital. After that towards Gaushala road in north direction up to Gaushala which is the starting point.

**Ward No. 03 :-** Starting Point from Pradeep's house on Sultanpur-Gurugram Road along the municipal limits in south direction up to the confluence of Wazirpur-Gurugram Road, After this on the above road towards west direction up to Khanna hair dresser shop, then towards in north direction from MR Motors along east direction to Pradeep's house which is the starting point.

**Ward No. 04 :-** Starting point from the office of power house, towards east direction on Wazirpur road up to the municipal boundary point latitude and longitude 28.443-76.8415, then towards the south direction up to municipal boundary point latitude and longitude 28.4136-76.8411, then towards in the west direction up to the point latitude and longitude 28.4153-76.8266, which joins the Fazilpur road. After that along the said road in the north direction up to point latitude and longitude 28.4396-76.8236, then towards East direction *via* Public Health Office up to Saini Dharamshala, then towards North direction up to office of Power House which is the starting point office of power house.

**Ward No. 05 :-** Starting point Shiv Dayal Saini's shop on bus stand, towards east direction on Wazirpur road up to Sandeep Yadav's plot, then towards south direction up to Ashok's house, then towards west direction up to Sakambhari General Store shop, After this towards North direction on Fazilpur road up to shop of Kirsan Yadav, then in East-North direction towards bus stand up to Shivdayal Saini's shop which is the starting point.

**Ward No. 06 :-** Starting point latitude and longitude 28.4447-76.7969 on Hailymandi Khera-Khurmpur road where the western boundary of the municipality is situated, start towards east direction up to shiv mandir, then towards south direction on Fazilpur road up to khasra no. 189 of kila no. 16 min, After this along the west-northern boundary where the municipal boundary intersects the Pataudi road and the municipal boundary meets the Haily mandi Khera-Khurmpur road which is the starting point latitude and longitude 28.4447-76.7969.

**Ward No. 07 :-** Starting point from the house of Naresh Kumar Dixit towards east direction up to the house of Ramkishan, then towards in south direction up to Jatav Chaupal, then towards west direction on Pataudi road up to the house of Babulal Bawaria, then towards north direction up to the house of Naresh Kumar Dixit which is the starting point.

**Ward No. 08 :-** Starting Point from Gajendra Jain's shop towards east direction up to Sheela Devi's shop, then towards in South-East direction up to Ashok Kumar's house, then towards South direction up to Vijay's shop, then towards west direction passing through Babita Devi's house up to Munshi Ram's house. Then towards north direction up to Gajendra's shop which is the starting point.

**Ward No. 09 :-** Starting point from Chitwan's house towards in east direction up to Rohtas house, then towards in south east direction up to Rekha (Mukesh Fruit) shop, then towards in south direction up to Rajendra's house, then towards in west direction up to Rajendra's house, the towards north direction up to Mola Devi's house, then towards west direction from Rajbala's house up to Girls Senior Secondary School. Then towards in North direction up to Ramotar's house, then towards in West direction up to Sunil Goyal's shop, then towards in North direction up to Chitwan's house which is the starting point.

**Ward No. 10 :-** Starting point from municipal shops, towards east direction (mini bypass) up to Bisan Saini's house, then towards south east direction *via* Jeevan Jyoti school up to Maman's shop, then towards west direction up to shop of Satbir, then towards west direction up to Saravan shop, then towards north direction Up to Manju's house, then towards west direction up to Nihal Singh's house, then towards south direction up to Indra's house, then towards west up to Bhaneram's house. After this, towards north-west direction up to the house of Vidya Devi, then towards north-east direction up to the municipal shops which is the starting point.

**Ward No. 11 :-** Starting Point from Kamlesh's house towards in East direction up to Madan Saini's house, then towards in North direction up to Netram's house, then towards in East direction up to Gaushala Ground, then towards in South direction *via* Harchand. Saini's house up to Jain Dental Clinic Hospital, then towards west-north up to Bsanti's house, towards west direction up to Pushpa's house. After that, towards North direction up to Sher Singh's house, then towards west direction up to Motilal Verma's house, then towards North direction up to Kisanchand's shop, then towards East-North direction up to Kamlesh's house which is the starting point.

**Ward No. 12 :-** Starting point from Motilal Verma's house, towards east direction up to Shyam Lal's house, then towards in south direction up to Atar Jain's shop, then towards in west direction up to Digambar Jain's shop, then towards north direction up to Motilal Verma's house which is the starting point.

**Ward No. 13 :-** Starting point from Santosh's house, towards east direction on mini bypass up to Nagar Palika shop, then towards in south-west direction *via* sadhu's house up to Raghunath's house, then towards west-north direction *via* Mastram's house up to Laxman's house, then towards in north direction up to Santosh's house which is the starting point.

**Ward No. 14 :-** Starting point from Pushpa's house, towards in east-south direction up to Raghunath's house, then towards in south direction up to Sitaram temple, then towards in west direction up to Saravan's house, then towards in north-west direction up to house of Om Prakash, then towards in the north-east direction up to the house of Pushpa which is the starting point.

**Ward No. 15 :-** Starting Point From Rajkumar's house, towards in East-South direction up to Veterinary Hospital, then towards in East direction *via* Arun Jain's shop up to Rajrani's house, then towards in South direction up to Govt. Hospital, then towards in west direction up to Govt. Hospital, then towards in north direction *via* Municipal office up to Rajkumar's house which is the starting point.

**Ward No. 16 :-** Starting point from Khasra No 65 of Kila no. 10, where the west-east boundary of the municipality begins, then towards in the east-north direction up to the house of Balbir, then towards in the south direction up to the house of Pramod, then towards in the west direction up to the house of Mahtab, then towards south direction up to Ramesh's house, then towards West-South direction *via* Dhankhar School up to Lajij Restaurant, then towards west direction up to the western boundary of municipality which is point Khasra No 69 of Kila no 22, then along western and northern boundary of the municipality up to the north-eastern boundary which is the starting point Khasra No 65 of Kila no 10.

VIKAS GUPTA,  
Commissioner and Secretary to Government, Haryana,  
Urban Local Bodies Department.